



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-09-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-09-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-09-29	2021-09-30	2021-10-01	2021-10-02	2021-10-03
वर्षा (मिमी)	20.0	25.0	20.0	20.0	18.0
अधिकतम तापमान(से.)	21.0	21.0	21.0	20.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	14.0	14.0	15.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	90	90	95	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	60	60	60	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	140	140	130	130	130
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	4	2	2	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 20.0 से 22.0 व 14.0 से 15.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 3 से 9 अक्टूबर के दौरान राज्य में वर्षा व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक तथा अधिकतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। चेतावनी: आगामी पांच दिनों में पहाड़ों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने व तीव्र बौछार होने तथा 27 व 28 सितम्बर के दौरान कहीं-कहीं भारी वर्षा होने तथा आज कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी सम्भावना है।

सामान्य सलाहकार:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए एनडीवीआई 0.1-0.5 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम से अच्छी है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से नैनीताल जिले में हल्की सूखे की स्थिति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मध्यम वर्षा की सम्भावना को देखते हुए, किसान भाई रसायनों का छिड़काव न करें तथा खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। कटी हुई परिपक्व फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की बालियों को पानी, मिट्टी को न छुने दें। फूल से लेकर दाना भरने तक खेत में पानी का उचित स्तर बनाये रखें, फसल कटाई के एक सप्ताह पूर्व फसल प्रक्षेत्र से पानी निकाल दें तथा कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। आगामी दिनों में वर्षा की सम्भावना को देखते हुए अभी कटाई से बचें।
गाजर	इस माह घाटी क्षेत्र में गाजर की बुवाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
पालक	भावर व घाटी क्षेत्र सितम्बर और अक्टूबर माह में पालक की बुवाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।
प्याज	मध्यम ऊंचाई क्षेत्रों में पॉलीहाउस/पॉलीटनल में प्याज की पौधशाला तैयार कर सकते हैं। बुवाई से पूर्व बीज को उपचारित करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस महीने से मौसम में बदलाव आ रहा है, इसलिए सर्दियों की शुरुआत से जानवरों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
भेंस	जिन पशुओं में एफ0एम0डी0 (मुखपका खुरपका) रोग के टीके नहीं लगे हैं उन पशुओं में तत्काल टीकाकरण करा लें। ताकि आपका पशुधन स्वस्थ रहे और उस से सही उत्पादन प्राप्त हो सके।